

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-मार्च, 2015 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015 (माघ 30, 1936)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री रामेश्वर ठाकुर, पूर्व राज्यपाल,
- (2) डॉ. मालती मौर्य, पूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) श्री शंकरलाल साबू, पूर्व विधान सभा सदस्य,
- (4) कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, पूर्व विधान सभा सदस्य,
- (5) श्री आर.के. लक्ष्मण, सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, तथा
- (6) धार जिले में यात्री बस खाई में गिरने से मृत व्यक्ति.

## 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, द स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 पटल पर रखेंगे.

(2) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 13 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 तक में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

## 4. दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

## 5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

## 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय सिंह, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में साइबर अपराधों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री गोपीलाल जाटव, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि -

“सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम् प्रतिवेदन से सहमत है.”.

## 9. सभापति तालिका की घोषणा

**भोपाल :**  
**दिनांक : 18 फरवरी, 2015**

**भगवानदेव ईसरानी**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**